

IndiaMART InterMESH Ltd.

6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P. Call Us: +91 - 9696969696 E: customercare@indiamart.com Website: www.indiamart.com

July 29, 2025

To, **BSE Limited** (BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited (NSE: INDIAMART)

Subject: Intimation of publication of newspaper advertisement for the notice of Postal **Ballot and Remote E-voting information** 

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisements published in the following newspapers on July 29, 2025 with respect to the notice of Postal Ballot, Remote Evoting and other related information:

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper All India); and
- Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investor.indiamart.com/

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For IndiaMART InterMESH Limited

(Vasudha Bagri) **Compliance Officer** Membership No: A28500

Encl: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 

### THREAT OVER CHINESE OVERCAPACITY LOOMS

# EU trade talks: India to offer regulatory certainty for FDI

**RAVI DUTTA MISHRA** New Delhi, July 28

IN THE FIRST such offer made during trade deal negotiations, India is working on a "new chapter" aimed at extending long-term regulatory certainty in the domestic manufacturing sector to attract investment from the European Union (EU), it has been learnt.

This comes in the backdrop of shared concerns between India and the EU over Chinese overcapacity, which is viewed as a threat to domestic manufacturing of critical products such as pharmaceuticals, electronics and defence requirements, among others.

"In the EU deal, one of the newchapters that has come in is about investment in non-services, which is a new element where they (EU) are looking at certainty on the commitments for FDI in non-services sectors basically the manufacturing sector," a government official said. "There are two parts to it.

sectors. The aimwas to inform representatives from these sectors about the changes CETA will bring and to seek their input on the kind of support they may require to fully leverage preferential access to

One is deciding on sectors

where India will allow 100%

FDI. Second, there are a number

of conditions on things such as

'localemployment', 'local value

addition; 'use of local raw mate-

rials' and conditions around

TO PREPARE THE industry

for the opportunities created

by the Comprehensive Eco-

nomic and Trade Agreement

(CETA) with the UK, the min-

istry of commerce and indus-

try on Monday held a meeting

with stakeholders from the

textile, leather and footwear



Govt begins consultations to prepare

industry for UK trade deal gains

the UK market. More sector-based consultations are planned in the

coming days to help the indus-

istry will also engage with manufacturing clusters in various states to ensure they are ready to benefit from the provisions of the landmark agreement. The pact offers textile and clothing products duty-free access to the UK market, addressing the duty disadvantages of up to 12% that Indian exporters faced compared to key competitors like Bangladesh, Cambodia, and Pakistan. —FE BUREAU

try translate these opportuni-

whether there will be local partter that was offered to the EU ners and joint ventures or not," during the last round of negothe official said. Another pertiations. This comes as India son said that the government has begun seeking to attract had undertaken extensive investments from Western stakeholder consultations to countries in exchange for lowwork on the investment chapering tariffs on key sectors.

## **GAIL posts** 25% fall in Q1 net profit

ARUNIMA BHARADWAJ New Delhi, July 28

GAIL INDIA ON Monday reported a 25% decline in its consolidated net profit of ₹2,382 crore for the first quarter, compared with ₹3,183 crore in the year-ago period. On a sequential basis, the net profit fell 5% from ₹2,506 crore. Revenue, despite rising a marginal 1.7% y-o-y to ₹35,429 crore, declined 3% on a sequential basis from ₹36,551 crore.

The company estimates the capex target for FY26 at ₹10,700 crore, against ₹10,512 crore incurred in FY25, it said.

"The company has incurred a capex of ₹3,176 crore during the current quarter, mainly on pipelines, petrochemicals, equity contribution to JVs, etc," chairman and MD Sandeep Kumar Gupta said.

Gupta said GAIL has got an authorisation from the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for capacity expansion of the Jamnagar-Loni LPG pipeline from 3.25 million tonne per annum to 6.5 MMTPA, involving an estimated capex of ₹5,000 crore.

# Kharif sowing up 4%; drop in oilseeds & cotton areas

**ABOVE NORMAL MONSOON** rains after an early onset have helped the sowing of kharif crops, including paddy, pulses, oilseed, sugarcane and cotton. Sowing has been completed in over 82.9 million hectare (mha), or 76% of normal sown Boost to sowing of kharif crops (Change % y-o-y) areas of 109.6 mha. 13.4 The overall area so Total sown area 82.96 million far has increased 4% hectare (MH) as on July, 25, y-o-y, with higher 2025, against normal sown areas covered under area of 109.66 MH paddy and pulses, reports Sandip Das. With the exception of cotton and oilseeds — whereas 0.5 area under soybean and sunflower has declined 3.85% and Paddy Pulses Oilseeds Cotton Coarse Sugarcane 5.24%, respectively, cereals — sowing has been higher on year. Source: Agriculture ministry, \*including cotton, jute, mesta

# NTPC Green profit jumps 59% in Q1

New Delhi, July 28

NTPC GREEN ENERGY, the renewable energy subsidiary of NTPC, on Monday reported a 59% rise in its consolidated net profit for the quarter ended June at ₹220.48 crore, compared with ₹138.61 crore in the

basis, the profit declined 5% from ₹233.21 crore.

Revenue stood at ₹680.21 crore, up 17.6% from ₹578.45 crore in the same period of the previous fiscal. Total income grew 23.7% to ₹751.69 crore, against ₹607.43 crore in the same quarter last year.



#### INDIAMART INTERMESH LIMITED

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1" Floor, 29- Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002 Corp. Office: 6" Floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector-135, Noida- 201305, U.P.

Website: www.indiamart.com; Email: cs@indiamart.com; Ph. No: 011-45608941 NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given, pursuant to the provisions of Section 108, 110 of the Companies Act. 2013 (the 'Act') and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), Secretarial Standard- 2 on General Meetings ('SS-2') and other applicable provisions of the Act, rules, regulations, circulars and notifications (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), seeking approval of the shareholders of IndiaMART InterMESH Limited (the 'Company') on the below appended resolutions by way of Ordinary/Special Resolution by means of Postal Ballot to vote through Remote Electronic Voting ('Remote E-voting').

In compliance with the General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as ('MCA Circulars') and any Circular issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), this Postal Ballot Notice ('Notice') along with the Explanatory Statement has been dispatched through electronic mode on Monday, July 28, 2025, to those members whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the National Securities Depository Limited ('NSDL')/Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as on Friday, July 25, 2025 ('Cut-off date') and whose e-mail ids are registered with the Company/ MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited), Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/Depository Participants

The Notice is available on Company's website at https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx. Stock Exchange's website i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited ('NSDL') website at

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2, the Company is providing the Remote E-voting facility to its members, through E-voting services of NSDL, to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted through Postal Ballot by electronic means. In this regard, members are hereby informed that:

- The Remote E-voting period shall commence on from Thursday, July 31, 2025 at 9:00 a.m. (IST) and shall end on Friday, August 29, 2025 at 5:00 p.m. (IST). Members are requested to cast their vote through Remote E-voting not later than 05:00 p.m. (IST) on Friday, August 29, 2025, to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been received. The Remote E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, such member shall not be allowed to change it subsequently.
- 2. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Friday, July 25, 2025, shall only be entitled to vote through Remote E-voting.
- The voting rights of member(s) for Remote E-voting shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to vote through Remote E-Voting. Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
- During this period, member holding shares may cast their vote by providing their assent or dissent through Remote E-voting only.
- Detailed process and manner of Remote E-voting has been provided in the Notice. a) Members whose Email- ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for Remote E-voting as provided in the Notice.
- b) In case Members have not registered/updated their email address & mobile number for receiving all communications through electronic mode and/or not register/update their bank account mandate and KYC, please Register/Update their details with the DP where their respective demat accounts are maintained. Upon successful registration of email lds, the login ID and password for Remote E-voting shall be shared on the member's registered email lds.
- Alternatively, members may send a request to www.evoting.nsdl.com for procuring user id and password for Remote E-voting by providing documents as mentioned in
- In case of any query relating to Remote E-voting you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on 022 -4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.com
- Mr. Devesh Kumar Vasisht (Membership No. F8488), Managing Partner, falling him Mr. Parveen Kumar (Membership No. F10315), Partner of M/s DPV & Associates LLP. Company Secretaries (Firm Registration No.: L2021DE009500) has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and Remote E-voting process in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot will be declared on or before Tuesday, September 2, 2025 and the same. along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

For IndiaMART InterMESH Limited

Manoj Bhargava Company Secretary



# TRUSTED BY MILLIONS **CUSTODY WORTH TRILLIONS**

₹ 464.16 trillion assets held in custody\*

39.45 million active demat accounts\*

99.34% pin codes in India where account holders located\*

194 countries across the world\* **79,773** issuers registered with NSDL\* (Market Share in number of unlisted equity companies 73.04%\*)

\*As on March 31, 2025 (Source CRISIL Report) #Source: SEBI Bulletin, CRISIL Intelligence

**National Securities Depository Limited** 



This pictorial representation of map of India does not purport to be the political map of India

NATIONAL SECURITIES DEPOSITORY LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the red herring prospectus ("RHP") dated July 23, 2025 with RoC. The RHP shall be available on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com, the website of the Company at www.nsdi.co.in and the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, Motilal Oswal Investment Advisors Limited, Axis Capital Markets Limited and HDFC Bank Limited at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in, www.business.hsbc.co.in, ww SEBI for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The Equity Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (a) within the United States solely to persons who are reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Section 4(a) of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

> Adfactors 298B/25 epaper.financialexpress.com New Delhi

Place: Noida

Dated : July 28, 2025

# ब्रिटेन के साथ भारत का कृषि निर्यात तीन साल में 50% तक बढ़ेगा



नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से अगले तीन वर्षों में भारत के कृषि निर्यात (ब्रिटेन को ) में 50 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी होने का अनुमान है।

समझौते के तहत 95 प्रतिशत से अधिक शल्क खत्म होने से किसानों को सीधे तौर पर कृषि उत्पादों को निर्यात करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए सरकार निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाले किसान उत्पादक

संगठन ( एफपीओ ) का विस्तार करेगी, जिसमें किसानों की सहभागिता होगी। मौजूदा समय में देश में काफी एफपीओ सक्रियहैं।सरकार इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी में है ताकि किसान इनके माध्यम से ब्रिटेन समेत अन्य देशों में अपने कृषि उत्पादों को उचित मूल्य बेच पाएं।

वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि भारत के कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य हुआ है। इसका फायदा इन उत्पादों से जुड़े किसानों को होगा।एपीडा को फल, सब्जियां. मसाले और दालों के निर्यात में 2030 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात मुल्य में 1 से 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान होगा।



#### इन कृषि उत्पादों के निर्यात पर आयात शुल्क हुआ शून्य

उत्पाद	वर्तमान	सीईटीए के
	प्रतिशत	तहत शुल्क
ताजे अंगूर	8	शून्य
ताजे प्याज	4.5	शून्य
प्राकृतिक शहद	16	शून्य
केले	6	95 पाउंड प्रति टन
		शुल्क हटाया
मीठे बिस्किट	4.50	शून्य
खाद्य पदार्थ	5.0	शून्य
मेवा और कई	3.60	शून्य
बीजों के मिश्रम		

मुनाफावसूली के

व्यापार समझौते में देरी

प्रमुखकारण

2. पहली तिमाही के

कमजोर नतीजे

3. विदेशी निवेशकों की

4. डॉलर के मुकाबले

19 हजार करोड़ निकाले

विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार

बिकवाली से घरेलू शेयर बाजारों पर

दबाव बढ़ गया है। इन निवेशकों ने

5,876 .76 करोड़ रुपये के शेयर

बेचे थे। पिछले हफ्ते नकद बाजार

में एफआईआई ने 13,552 करोड़

सोमवार को भारतीय बाजार में

निरंतर पूंजी निकासी

रुपये में गिरावट जारी

#### कुटीर उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का अवसर

खाद्य प्रसंस्करण,

पैकेजिंग और मुल्यवर्धित कृषि उत्पाद ( जैसे मैंगो पल्प, अंचार, सॉस, बिस्कुट) अब वियतनाम और पेरू जैसे शुल्क मुक्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ मूल्य पॅर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इससे ब्रिटेन की खुदरा श्रृंखलाओं, खाद्य सेवा बाजारों और एथनिक सेगमेंट में उनकी उपस्थिति मजबुत होगी।

समझौते में पेटेंट अवधि बढ़ाने या डेटा की विशिष्टता को अनिवार्य नहीं किया गया है। इस कदम से भारत के घरेलू जेनेरिक दवा उद्योग के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन ने इसकी मांग की थी, जिसे स्वीकारा नहीं गया। देश का जेनेरिक दवा उद्योग 25 अरब डॉलर का है।

#### देशके कई राज्यों को मिलेगा व्यापक लाभ

महाराष्ट्र, गुजरात,

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी और पंजाब के प्रमुख कृषि–निर्यात क्लस्टरों को बढ़ी हुई मांग से लाभ होगा । इससे

एफपीओ, पैकहाउस, खाद्य पसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

#### जेनेरिक दवाक्षेत्र को राहत दी गई

#### फीसदी तक आधार शुल्क लगाएंगे : ट्रंप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि जिन देशों ने अमेरिक के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है, उन पर एक अगस्त से 15 से 20 फीसदी तक आधार शुल्क लगाया जाएगा।

यह दर अप्रैल में लगाए गए 10 प्रतिशत शुल्क से कहीं अधिक है। जल्द ही 200 देशों को इस नए विश्व शुल्क' की जानकारी दी जाएगी। अमेरिका द्वारा गई छूट की समयसीमा एक अगस्त को समाप्त हो रही है। वहीं, भारत अंतरिम समझौते पर वार्ता कर रहा है।

80,891-572.07 | 24,680-156.10

### माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा

पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी को सेवाएं देना बंद कर दिया है। इस पर भारतीय रिफाइनरी नायरा एनर्जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मकदमा किया है। कंपनी ने कहा कि माझ्क्रोसॉफ्ट नायरा एनर्जी की अपने डेटा, मॉलिकाना उपकरणों और उत्पादों तक पहुंच को रोक रही है।

#### जेन स्ट्रीट ने जवाब देने के लिए समय मांगा

**बेंगलुरु।** अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने सोमवार को कहा कि उसने भारत के बाजार नियामक सेबी के एक अंतरिम आदेश का जवाब देने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। सेबी ने तीन जुलाई को जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया था। कंपनी का कहना है कि वह सेबी के साथ सहयोग कर रही है। कंपनी पर भारतीय शेयर बाजार हेरफेर के आरोप हैं।

#### भारतीय कंपनियों की राजस्व वृद्धि सुस्त रहेगी

नई दिल्ली। चालु वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में भारत के कॉरपोरेट क्षे की राजस्व वृद्धिं दर मामूली रूप से 4–6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्रिसिल इंटेलिजेंस ने यह अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा पिछली दो तिमाहियों से सात प्रतिशत से कम है। विश्लेषण में 600 से अधिक कंपनियों शामिल हैं।

## लगातार तीन सत्रों से गिरावट का सिलसिला जारी

# भारी बिकवाली से बाजार दो माह के निचले स्तर पर

नर्ड **दिल्ली. एजेंसी**। भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में भारी गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स जहां 572 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी 156 अंक के नुकसान में रहा। इस गिरावट के साथ ही बाजार दो महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। इसके साथ निवेशकों को तीन दिन के भीतर 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते यह तेज गिरावट देखी जा रही है। निवेशक सतर्कता बरतरहे हैं। बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 572.07 अंक की गिरावट के साथ 80,891.02 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 686.65 अंक तक लुढ़क गया था।

पर बंद हुआ। पिछले तीन सत्रों में हुई

बिकवाली ने सेंसेक्स को 1,950

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य

सिंधिया ने सोमवार को कहा कि

बीएसएनएल को अपनी सेवा

गुणवत्ता में निरंतर सुधार की प्रक्रिया

को जारी रखना चाहिए।उन्होंने कहा,

अगर सेवा की गणवत्ता सधारेंगे तो

बीएसएनएल की वर्ष 2025-26

की रणनीति समीक्षा एवं योजना

बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय

मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया और

मजबत सार्वजनिक क्षेत्रीय टेलीकॉम

जून में उद्योगों की

रफ्तार सुस्त पड़ी

नर्ड दिल्ली. एजेंसी। देश के

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस

साल जून में सुस्त पड़कर 10 महीने

के निचले स्तर 1.5 प्रतिशत पर रही।

खनन और बिजली क्षेत्रों के कमजोर

प्रदर्शन के कारण यह सुस्ती आई है।

रूप में मापा जाने वाला औद्योगिक

उत्पादन बीते साल जून में 4.9

प्रतिशत की दर से बढ़ा था।एनएसओ

ने मई के वृद्धि दर के आंकड़े को भी

संशोधित कर 1.9 प्रतिशत कर दिया

है, जबकि पहले इसके 1.2 प्रतिशत

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के

ग्राहकस्वयं आएंगे।

वहीं, निफ्टी 156.10 अंक की गिरावट के साथ 24,680.90 अंक

सेवा में सुधार जारी रखे

बीएसएनएल : सिंधिया

की गिरावट आई है। इन क्षेत्रों पर अधिक दबाव :

रुपये की बिकवाली की थी। स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर दबाव रहा। एनएसई में रियलिटी के सूचकांक में सबसे ज्यादा 4.07 प्रतिशत की गिरावट रही। ऑटो, वित्तीय सेवा, बैंकिंग और आईटी

### सोना₹500 टूटा, चांदी में भी गिरावट

**नई दिल्ली, एजेंसी**। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट आई और यह 500 रुपये टूटकर 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई।

वहीं, चांदी भी 1000 रुपये रुपये घटकर 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम ( सभी करों सहित ) पर बंद हुईं।विश्लेषकों का कहना है कि मांग में गिरावट से कीमतों में नरमी आ रही है।

#### डिजिटल लेनदेन में १०% का उछाल

**नई दिल्ली, एजेंसी।** देश में इस साल मार्च तक डिजिटल भुगतान में सालाना आधार पर 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेनदेन को मापने वाले आरबीआई के सूचकांक से यह जानकारी मिली है।

मार्च 2025 में यह सूचकांक 493.22 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर 2024 में यह 465.33 और मार्च २०२४ में ४४५.५ था।

## ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश : वित्त मंत्रालय

#### समीक्षा रिपोर्ट

नईदिल्ली, एजेंसी।वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि खुदरा महंगाई आरबीआई के चार प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे है, इसके चलते ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है। यह बात वित्त मंत्रालय की मासिक समीक्षा रिपोर्ट में कही गई है।

खुदरा मुद्रास्फीति, जो उपभोक्ता मुल्य सुचकांक (सीपीआई) पर आधारित है, फरवरी से लगातार चार प्रतिशत से नीचे बनी हुई है। मई में यह और घटकर 2.82 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचगई, जो छह साल से अधिक का न्यूनतम स्तर है। आरबीआई ने इस सालफरवरी से अब तक रेपो रेट दर में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की है। इससे रेपो दर 6.5 फीसदी से घटकर 5.5 फीसदी पर आ गई है।

अगस्त में बैठक: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच होगी।

#### आर्थिक विकास दर सबसे तेज रहेगी

रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर रुख के साथ वृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, कर्ज वृद्धि में सुस्ती जरूर चिंता का विषय हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग और मौद्रिक समर्थेन की बदौलत भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। आरबीआई समेत कई रेटिंग एजेंसियों ने वृद्धि दर के 6.2 से 6.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल मद्रास्फीति भी कमजोर बनी हुई है, जिससे ब्याज दरों में कटौती का चक्र जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है।

#### APOLLO TYRES LTD

Offers are invited for sale of following process and non-process scraps: Rubber Compound, Rubberised Fabric, Bladder Green Tyres, Trimmings Nylon Waste, scrap Chemicals, Carbon Sweeping, Nylon yarn, Radial Steel Belts, rubberised Bead wire, Bead Removed from Cut / Green Tyres, Scrap Bare Bead wire, Radial Steel Wire, Waste Oil, Corrugated paper, Gunny Bags, Iron and Steel Scraps, Hoop Iron, Fire Wood, Mixed Polythene scrap, Jumbo Empty Black Bags, Jumbo Empty Carbon Black Bags in pieces, Copper / Aluminum Scrap, Items from Fireipt, Conveyor Belts, Scrap Gaskets from curing presses, Damage polythene Carbouy, unusable HDPE Bags, Jumbo Bags, Plywood Wooden Plank / Imported Wood, Nylon Bobbins, Scrap Liner Fabric including cut pieces, Used Turret Liners, Oil Steel Drums, Empty Carbouy, Stainless Steel, Empty Shell Rolls-Wood, Cut Tyres, Scrap Cured / Semi cured Tyre, Tubes, Flaps, Valves, Crumb Rubber, Embosed Colour Poly, Old / expired DT cement, old / expired DT Cushions, scrap tread rubber, Skid Pallet, . As specified in the e-Auction documents from our locations at Prembra / Kalamassary (Cochin), Limda (Baroda), Oragadam Sriperumbudur (Chennai), Chinnapanduru (A.P.), Bachupally & Chevella Hyderabad, RIC Kundli, Senepat, and RIC Hyderabad Sameerpet Mandal Hyderabad.

Vendor should have all the applicable product pollution control board certification, EPR registration on the State or Central Pollution Control Board (SCPB / CPCB), Ministry of Environment and Forests, Government of India along with other permission required to recycle / re-process and refurbish as per category.

For e-Auction / e-Tender please write or contact personally Mr. Ambuj Jain withing 10 days with a draft for Rs. 1000/- payable at Gurugram (Non-Refundable) favouring M/s Apollo Tyres Ltd., Apollo House, 7 Institutional Area, Sector - 32, Gurugram 122001, Haryana along with applicable Pollution Control Board Certificates.

All details of e-Auction / e-Tender will be shared in advance. Telephone: 0124 2383002 Extn. 417, FAX: 0124 2383020.

#### MUNJAL SHOWA

### मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएनः L34101HR1985PLC020934

पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः 9-11, मारूति इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 18, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा); **फोन**ः +91-124-4783000; **ई-मेल**ः <u>cs@munjalshowa.net</u> वेबसाइटः www.munjalshowa.net

#### वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तक बन्दी

एतद द्वारा सचना दी जाती है कि मं<mark>जाल शोवा लिमिटेड</mark> ('कम्पनी') के सदस्यों की **40वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बधवार**. 20 अगस्त, 2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न (मारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसाय को सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 तथा इस संबंध में इसके अनुवर्ती परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकि 25 सितम्बर, 2023 है जो उपरोक्त परिपत्रों में प्रदान की गई रूपरेखा को 30 सितम्बर, 2024 तक बढ़ाने के संबंध में है ('एमसी परिपत्र'), एवं भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/ CFD/ CMD1/ CIR/P/2020/79 दिनांकित 1: CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी 2023, परिपत्र संख्या SEBI/ HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांकित 7 अक्टबर, 2023 ('सेबी परिपत्र') एवं अधिनियम व प्रावधानों तथा सेबी (सचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में, कम्पनी की 40वीं एजीएम बुधवार, 20 अगस्त, 2025 11:00 बजे पूर्वाह्न (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित और संचालित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक सपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अतः सदस्य वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं एवं वीसी /ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सुचना एवं वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के प्रेषण का काम 28 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया है। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.munjalshowa.net</u>, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर भी उपलब्ध हैं।

कट—ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 अगस्त, 2025 तक भौतिक तौर पर या डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्य, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के सभी मदों पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य जगह से अपना वोट (रिमोट ई–वोटिंग) डाल सकते हैं। सदस्यों को आगे सचित किया जाता है कि:

- क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों का सम्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से किया जा
- ख) रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 17 अगस्त, 2025 को 9:00 बजे पूर्वाह (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी।
- ग) रिमोट ई—वोटिंग मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को 5:00 बजे अपराह्न (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि बुधवार, 13 अगस्त,
- ङ) कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् शेयरों का अधिग्रहण करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 13 अगस्त, 2025 तक शेयरों की प्रतिरक्षा करता है, वह
- helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग च)) सदस्य नोट कर सकते हैं कि: (i) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त बिंदु 'ग' में उल्लिखित तिथि और समय के उपरान्त मतदान हेत निष्क्रिय कर दिया जाएगाय (ii) किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात. सदस्य को तदनंतर इसे बदलने
- की अनुमति नहीं दी जाएगीय (iii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगीय (iv) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु बैठक में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगेय तथा (v) वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।
- छ) भौतिक तौर पर अथवा डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों एवं जिन्होंने अपना ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में दी गई है तथा कम्पनी की वेबसाइट <u>www.munjalshowa.net</u> पर उपलब्ध है।
- ज) भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को फोलियो संख्या के विवरण सहित पैन कार्ड की एक स्व—सत्यापित प्रति संग्लन कर helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर अनुरोध लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करायें। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल आईडी रजिस्टर/अपडेट करायें।
- झ) लाभांश अधिदेश को पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।
- ज) ई-वोटिंग के विषय में किसी भी शिकायत अथवा ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने से सम्बंधित किसी भी प्रश्न या प्रयोजनों हेतु आप <u>www.evotingindia.com</u> के हेल्प अनुभाग में 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कोष्चन्स' ('FAQs's) एवं 'ई—वोटिंग मैन्युअल' संदर्भित कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ईमेल लिखें अथवा श्री राकेश दलवी (1800 21 09911) से संपर्क करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के नियमों एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित एवं सेबी (सूचीबद्ध ता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में, कम्पनी के सदस्यों का रिजस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें, एजीएम तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लामांश (यदि घोषित किया जाता है) हेतु सदस्यों की पात्रता निर्घारण के उद्देश्य से, शनिवार, 2 अगस्त, 2025 से बुधवार, 20 अगस्त, 2025 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे। लागांश का भुगतान उन सदस्यों / लाभार्थियों को किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज हों। यह सुचना कम्पनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट लिंक या नीचे दिए गए क्युआर कोड पर भी उपलब्ध है: https://munjalshowa.net/wp-content/uploads/2025/07/Munjal-Showa-Annual-Report-2024-25.pdf तथा स्टॉक एक्सचेंजों <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।



निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता。/-नेहा बंसल सदस्यता सं: A38848

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

#### ₹12 लाखकरोड़ डूबे बाजार में जारी तेज गिरावट से

निवेशकों को तीन दिन में 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिर्फ सोमवार को बाजार में लगभग चार लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पंजीकरण घटकर ४४८ लाख करोड़ रुपये पर आ गया है।

अंक या 2.4 फीसदी तक गिरा दिया है, जबकि निफ्टी 50 में 2.3 फीसदी

मझौली और छोटी कंपनियों पर दबाव

संचार मंत्री

ने समीक्षा

बटक म

शिरकत की

कंपनी के सपने को साकार करने के

लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा जरूरी है।मंत्री

ने कहा, उपभोक्ता के विश्वास को

मजबुत करने पर विशेष ध्यान दिया

जाए। कंपनी ने 18 वर्षों में पहली

लगातार दो तिमाहियों में मुनाफा दर्ज

## क्षेत्रों ने बाजार पर दबाव बनाया। स्टारलिंक के 20

नई दिल्ली, एजेंसी। दुरसंचार राज्यमंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि उपग्रह संचार सेवा प्रदाता कंपनी स्टारलिंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन दे सकती है। ऐसे में देश की दूरसंचार

# लाख ग्राहक ही होंगे

कंपनियों को कोई जोखिम नहीं है। यहां एक बैठक में दूरसंचार

राज्यमंत्री पेम्मासानी ने कहा. स्टारलिंक 200 एमबीपीएस तक की गति प्रदान कर सकती है। इससे अन्य दूरसंचार सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।उन्होंनेकहा, सैटकॉम सेवाओं का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के

## टीसीएस छंटनी मामले पर आईटी मंत्रालय की नजर

प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में 12.000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी किए जाने की घोषणा के बाद

स्थिति पर करीबी निगाह रखी हुई है। आधिकारिक सत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा कि मंत्रालय लगातार कंपनी के संपर्क में है।मंत्रालय इस घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और इस फैसले के पीछे की

इसकी पडताल करेगा। सरकार का यह रुख इस लिहाज से महत्वपर्ण है कि टीसीएस ने इस साल 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है जो उसके कुल वैश्विक कार्यबल का दो प्रतिशत है। इस बीच, आईटी कर्मचारियों के संगठन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख

मांडविया को पत्र लिखकर टीसीएस प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगने का

#### रहने का अनुमान लगाया गया था। अनरोध किया है। अंगुली के निशान और चेहरे की पहचान से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। अपने बैंक खाते से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अब ओटीपी का इंतजार नहीं करना होगा। फेडरल बैंक ने देश में पहली बार ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सिर्फ अपने चेहरे की पहचान या अंगुलियों के निशान से भुगतान कर पाएंगे। माना जा रहा है। कि अन्य बैंक भी इस सुविधा को लागू

कर सकते हैं। यह तकनीक आरबीआई के सुरक्षा निर्देशों के तहत लाई गई है। इसमें बायोमैट्रिक और मोबाइल

#### ऐसे काम करती है यह तकनीक

ग्राहक को इस तकनीक की मदद से भुगतान करते समय बायोमेट्रिक सत्यापन की सहमति देनी होगी। इसके बाद मोबाइल पर विंडो खुलेगी, जिसमें अंगुलियों या चेहरे की पहचान ली जाएगी। सत्यापन पूरा होते ही तीन से चार सेकेंड में भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यहीं नहीं, अगर कभी बायोमेट्रिक पहचान असफल हो जाती है तो सिस्टम खुद-ब-खुद ओटीपी भेजकर भुगतान को पूरा करेगा। इससे लेनदेन में रुकावट नहीं आएगी ये सुविधा सभी भुगतान ऐप और मोबाइल सिस्टम पर उपलब्ध होगा।

उपकरण की पहचान से दोहरा गौरतलब है कि अभी ग्राहकों को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी। इस प्रक्रिया में ग्राहकों का डाटा पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहता है। इसके इस्तेमाल से ग्राहकों को तुरंत भुगतान करने में आसानी होगी। जिससे भुगतान रुक जाता है।

ओटीपी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आता था। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई बार देरी हो जाती है,

# यह सचना कंपनी वेबसाइटः

https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के सहपठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और लिस्टिंग विनियमों एवं एसएस-2 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस संबंध में, सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

indiamart

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग नोटिस की सूचना

एतद्द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, 110 और कंपनी (प्रबंधन एवं

प्रशासन) नियमावली, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के

विनियम 44, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ('एसएस-2') और अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं (वर्तमान में लागू किसी मी वैधानिक संशोधन या

रुनर्अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, **इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड** 

**('कंपनी')** के शेयरधारकों से नीचे दिए गए संलग्न प्रस्तावों पर साधारण / विशेष संकल्प के माध्यम . से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग **('रिमोट ई—वोटिंग')** के माध्यम से

5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 के अनुपालन में, समय—समय पर जारी किए गए

बाद के परिपत्रों के सहपठित, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय **('एमसीए')** द्वारा जारी किये गये हैं (एतद्वारा सामृहिक

रूप से ('एमसीए परिपत्र') के रूप में संदर्भित) और मारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी कोई भी परिपत्र, यह पोस्टल बैलट नोटिस ('नोटिस') व्याख्यात्मक विवरण के साथ

सोमवार, 28 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दिया गया

है, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल')/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा बनाए गए

नामार्थी मालिकों के रजिस्टर में शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 ('कट—ऑफ तारीख') तक दिखाई देते

हैं और जिनके ई—मेल आईडी कंपनी / एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर

एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं।

मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट का उपयोग के माध्यम से नोटिस दिया जाता है।

सीआईएनः L74899DL1999PLC101534 सीआईएनः L74889DL 1999PLC101534 पंजी. कार्यात्वयः पहली मंजिल, 29-वरियागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002 कार्पोरेट कार्यात्वयः छटी मंजिल, टॉक्र २, एसोटेक विजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नंबर–22, सेक्टर–135, नोएडा–201305, उ.प्र. वेबसाइटः www.indiamart.com; इनैक cs@indiamart.com; कोच नंबर 011-45608941

- रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय मानव समय) तक समाप्त होगी। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विचार के लिए पात्र होने हेतु शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 को सांयः 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दें, अन्यथा यह माना जाएगा कि कोई वोट प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, ऐसे सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति के रूप में दर्ज है केवल वह ही रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा।
- रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्य(यों) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट—ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस रॉजस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना
- इस अवधि के दौरान, शेयरधारक सदस्य केवल रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करके अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि सूचना में दी गई है।
- क) जिन सदस्यों के ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / आरटीए / डीपी के पास पंजीकत हैं, वे सूचना में दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। ख) यदि सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता
- और मोबाइल नंबर पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है और / या अपने बैंक खाते के अधिदेश और केवाईसी को पंजीकत / अपडेट नहीं किया है. तो कपया उस डीपी के पास अपना विवरण पंजीकृत / अपर्डेट करें, जहाँ उनके संबंधित डीमैट खाते हैं। ईमेल आईडी के सफल पंजीकरण के बाद, रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड सदस्य की पंजीकृत ईमेल आईडी पर साझा किया जाएगा।
- ग) वैकल्पिक रूप से, सदस्य सूचना में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए www.evoting.nsdl.com
- 6. रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुरितका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सदस्यता संख्या एफ८४८८), प्रबंध भागीदार, उनकी अनुपस्थिति पर श्री
- परवीन कुमार (सदस्यता संख्या एफ10315), मेसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी के भागीदार, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्याः एल2021डीई009500) को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पोस्टल बैलेट और रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियक्त किया गया है। पोस्टल बैलेट के परिणाम मंगलवार, 2 सितंबर, 2025 को या उससे पहले घोषित किए जाएँगे और उन्हें, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, https://investor.indiamart.com/ForthcomingPostalBallot.aspx, एनएसडीएल

की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सचित किया जाएगा। कृते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

स्थानः नोएडा दिनांकः 28 जुलाई, 2025

कंपनी सचिव

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : 28 जुलाई, 2025